

SONI MEDICARE LTD.

38, Kanota Bagh, Jawahar Lal Nehru Marg, JAIPUR-302 004 INDIA

CIN No:- L51397RJ1988PLC004569

Telephone: (0141) 5163700, Fax: (0141) 2564392

E-mail: sonihospital@sonihospitals.com

Date: 16/08/2023

To,
The Corporate Relations Department
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort, Mumbai- 400001

SCRIPT CODE: 539378 SCRIPT ID: SML

Sub: Submission of newspaper publication of Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023 under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/ Madam

With reference to above, we hereby inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI (LODR) Regulations, 2015"), the extract of the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2023 has been published by the Company in 15th August, 2023 editions of "The Financial Express" (English) and the "The Business Remedies" (Hindi).

The relevant copies of the said newspapers are enclosed herewith.

It may be noted that the aforesaid Unaudited Financial Results for quarter and 30th June, 2023 were approved by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 14th August, 2023 and the Outcome of the same has already been disclosed to the Stock Exchanges on 14th August, 2023 as per Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Kindly take the above information on your record.

Thanking you

Yours Faithfully,

For SONI MEDICARE LIMITED CIN: L51397RJ1988PLC004569

SHREYA GARG

(Company Secretary & Compliance Officer)

FINANCIAL EXPRESS

Diluted:

13 Capital Redemption Reserve

15 Debt Service Coverage Ratio

16 Interest Service Coverage Ratio

14 Debenture Redemption Reserve

KINGS INFRA VENTURES LIMITED

(CIN: L05000KL1987PLC004913) Registered office: 14B, 14th Floor, The Atria,

Opp. Gurudwara Temple, Thevara, Cochin - 682 015. Tel: 0484 6586558, Email: info@kingsinfra.com, Web: www.kingsinfra.com

Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023 (Rs. In Lakhs except EPS data) **Particulars** Quarter Ended Year Ended 31-Mar-23 30-Jun-22 30-Jun-23 31-Mar-23 (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Audited) 2054.61 Total Income from Operations (net) 2096.09 1124.37 6124.08 Net Profit for the period (before tax, 281.18 779.49 Exceptional and/or Extraordinary Items) 292.13 134.42 Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) 292.13 281.18 134.42 779.49 Net Profit for the period after tax 208.56 (after Exceptional and/or Extraordinary Items) 214.85 99.29 579.47 Total Comprehensive Income for the Period ([Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 214.85 210.28 99.29 581.19 Equity Share Capital 2351.23 2351.23 2351.23 2351.23 1248.12 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 3599.35 Net Worth Paid up Debt Capital / Outstanding Debt Outstanding Redeemable Preference Shares Debt Equity Ratio 0.84 12 Earnings Per Share (of Face Value of 10/- each) (for continuing and discontinued operations)

0.91**

0.91**

200

0.88**

0.88**

0.42**

0.42**

-

2.46**

2.46**

0.50

4.18

	9			(Rs. In La	akhs except EPS o
	Particulars	Q	uarter End	ed	Year Ended
SI.No		30-Jun-23	31-Mar-23	30-Jun-22	31-Mar-23
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations (net)	2096.09	2054.61	1124.37	6124.08
2	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	291.93	279.22	134.28	772.25
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	291.93	279.22	134.28	772.25
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	214.65	206.60	99.15	572.23
5	Total Comprehensive Income for the Period ([Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	214.65	208.31	99.15	573.94
6	Equity Share Capital	2351.23	2351.23	2351.23	2351.23
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	17		8	=
8	Net Worth	- 65	-	-	3592.22
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	-		-	1071.72
10	Outstanding Redeemable Preference Shares		-		<u></u>
11	Debt Equity Ratio	-	15	- 2	0.84
12	Earnings Per Share (of Face Value of 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	Basic:	0.91**	0.87**	0.42**	2.43**
	Diluted:	0.91**	0.87**	0.42**	2.43**
13	Capital Redemption Reserve	85		-	
14	Debenture Redemption Reserve				
	Debt Service Coverage Ratio			70	0.50
16	Interest Service Coverage Ratio	82.0	:5		4.15

 The above Unaudited Financial Results for the guarter ended June 30, 2023 were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on 14thAugust, 2023. The Statutory Auditors have carried out a Limited Review of the above financial results.

The above is an extract of detailed format of unaudited standalone and consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2023 filed with BSE LTD. under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Unaudited Financial Results along with segment based information for the quarter June 30, 2023 is available on the Stock Exchange website at (www.bseindia.com) as well as on the Company's Website at (www.kingsinfra.com).

Place: Kochi Date: 14.08.2023

By order of Board of Directors For Kings Infra Ventures Limited

Balagopal Veliyath Executive Director DIN: 05254460

ANNA INFRASTRUCTURES LIMITED

CIN: L65910UP1993PLC070612 R/o: Shop No. 1 & 3, E-14/6 First Floor, Shanta Tower, Sanjay Place, Agra-282002 Email ID: annainfra@gmail.com, Website: www.annainfrastructures.com, Telephone: 0562-4060806 Public Notice - 31" Annual General Meeting

The 31" Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Monday, 11" September, 2023

at 1:00 p.m. (IST) at the registered office of the company situated at Shop No. 1 & 3, E-14/6 First Floor. Shanta Tower, Sanjay Place, Agra-282002 in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules issued thereunder and the Securities and Exchange Board of India 'SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 along with other applicable Circulars issued in this regard by MCA and SEBI, to transact the businesses that will be se in compliance with the above circulars, the companies will be sending electronic copies of Notice of the

AGM and Annual report for the financial year 2022-23 to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent ("RTA")/ Depository Dissemination on website: An electronic copy of Annual Report 2022-23 of the Company, inter-alia,

website of the Company at www.annainfrastructures.comand on website of Stock Exchange viz. BSE Limited at www.bseindia.com Manner of registration of e-mail address/Mobile No: Shareholders who wish to register their email

containing the Notice and the Explanatory Statement of the Company will be available on the

address/mobile no, are requested to follow the below instructions: Shareholders holding shares in the Physical form Register/update the details in prescribed form ISR-1 with RTA of the Company. Shareholders holding shares in Dematerialized Form Register/update the details in your Demat

Account, as per process advised by your DP.

For and on behalf of

Date: 14th August 2023

Place: New Delhi

Manner of casting votes:

available in Company/RTA/DP

The Company is pleased to offer the e-voting facility before the AGM through remote e-voting, to its shareholders in respect of business to be transacted at the AGM and this purpose, the Company has appointed CDSL for facilitating voting through electronic means.

Detailed procedure w.r.t. e-voting will be sent In case e-mail id is registered with the Company/RTA/DP to the registered e-mail id and also will be available in the notice of AGM. Detailed procedure w.r.t. e-voting will be In case e-mail id is not registered with the

the notice of AGM

A person, whose name is recorded in the Register of Members of the Company, as on out-off date i.e. Monday, 04" September, 2023, only shall be entitled to avail the facility of e-voting, either through remote e-voting or through e-voting system during the AGM.

Anna Infrastructures Limited Date: 21/12/2021

Anil Kumar Agarwal (Company Secretary)

RITA FINANCE AND LEASING LIMITED

CIN:L67120DL1981PLC011741 Registered office: D-328, Basement Floor, Defence Colony, New Delhi-110024

Email: ritaholdingsltd@gmail.com; Website:www.ritafinance.in; Contact No: 011-45689444 Extract of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30th June 2023

					(Rs. In Lakhs)	
Sr.	Particulars	Qua	Year ended			
No.	//-	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023	
	-	(Un-Audited)	(Audited)	(Un-Audited)	(Audited)	
7	Total income from Operations	26.07	16.41	40.03	115.92	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	23.14	11.46	36.22	100.04	
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	23.14	11.46	36.22	100.04	
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	17.34	8.58	27.09	74.94	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	17.34	8.58	10.85	74.94	
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/-)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
7	Other Equity as at 31st March	- 1	-	475.50		
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) ((for continuing and discontinued operations):					
	Basic:	0.17	0.08	0.27	0.74	
	Diluted:	0.17	0.08	0.27	0.74	
Note	es:					

The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results for the quarter ended 30th June 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulrements) Regulations, 2015.

The Above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 14th August 2023. The Statutory Auditor of the Company have provided Limited Review Report for the same.

Figures of previous periods were re-grouped/re-classified wherever necessary to confirm to the periods of current periods. Indian Accounting Standards are applicable on the Company.

> On behalf of Board For RITA FINANCE AND LEASING LIMITED

PAWAN KUMAR MITTAL (Director)

DIN: 00749265

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Rs. (In Lakh)

SONI MEDICARE LIMITED

REGD OFFICE: 38.KANOTA BAGH, JAWAHAR LAL NEHRU MARG, JAIPUR 302004 CIN L51397RJ1988PLC004569, Email: cs@sonihospitals.com Website:www.sonihospitals.com Contact No. 0141-5163700, FAX: 0141-2564392

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023 (Rs. in lakhs)

S. No.	Particulars	3 Months ended	Preceding 3 Months ended	Corresponding 3 Months ended in previous year	Year Ended
		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Income from Operations (Net)	753.60	555.86	668.40	2,753.17
	Other Operating Income	20.12	49.84	11.89	96.43
2	Profit and (Loss) before exceptional items and tax	11.40	(88.68)	6.63	(61.09)
3	Net Profit/ (Loss) for the Period after tax	9.17	(90.71)	5.57	(67.33)
4	Paid up share capital Face Value of Rs.10/- each)	426.49	426.49	426.49	426.49
5	Basic and diluted EPS (Not Annulized) (Rs.) Basic	0.21	(2.11)	0.13	(1.58)
	Diluted	0.21	(2.11)	0.13	(1.58)

Date: 14-08-2023

Place: Jaipur

 The above results have been approved by the Board of Directors at its meeting on 14th August, 2023. (ii) The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Year ended audited Financial Results filed with the Stock

Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Year ended audited Financial Results are available on the website of Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.sonihospitals.com)

By Order of the Board of Directors For Soni Medicare Limited SD /-Bimal Roy Soni (Managing Director) DIN: 00716246

MEHAI TECHNOLOGY LIMITED

(CIN: L74110RJ2013PLC066946)

Reg. Office: B-40, Sudarshanpura Industrial Area, Jaipur - 302006.

Corporate Office: Unit No. 708, 7th Floor, ECO Centre, Block-EM-4 Sector-V, Salt Lake Kolkata 700091 WB IN Phone: 91-9836000343, E-mail: cs@mehai.co.in, website: www.mehaitech.co.in

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE 2023


PARTICULARS	STANDALONE			CONSOLIDATED				
UNICE PROCESSAN A PERSONAL PROCESSAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	For the year Ended	Quarter	Quarter	Quarter	For the year Ended
	June 30, 2023	March 31, 2023 Un-Audited	June 30, 2022 Un-Audited	March 31, 2023	June 30, 2023	March 31, 2023 Un-Audited	June 30, 2022 Un-Audited	March 31, 2023
	Un-Audited			Audited	Un-Audited			Audited
Total Income from Operations (Net)	213.45	453.25	84.08	816.68	226.42	453.25	84.08	889.07
Profit/(Loss) before Exceptional Items & Extraordinary items and tax	22.41	64.98	5.32	86.28	22.93	65.21	5.32	88.58
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinery Items	22.41	64.98	5.32	86.28	22.93	65.21	5.32	88.58
Net Profit/(Loss) for from Ordinary Activities after tax	14.44	33.87	3.98	33.87	14.83	34.04	3.98	51.44
Total Comprehensive income for the period	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Paid-up Equity Share Capital (Rs. 10/- per share & Consolidated (Rs. 10.02 Per Share)	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1071.00	1071.00	1,071.00	1,071.00
Earnings per Share (a) Basic	0.13	0.32	0.04	0.46	0.14	0.32	0.04	0.48
(b) Diluted	0.13	0.32	0.04	0.46	0.14	0.32	0.04	0.48
	Profit/(Loss) before Exceptional Items & Extraordinary items and tax Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinery Items Net Profit/(Loss) for from Ordinary Activities after tax Total Comprehensive income for the period Paid-up Equity Share Capital (Rs. 10/- per share & Consolidated (Rs. 10.02 Per Share) Earnings per Share (a) Basic	Total Income from Operations (Net) Profit/(Loss) before Exceptional Items & Extraordinary items and tax Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinery Items Net Profit/(Loss) for from Ordinary Activities after tax Total Comprehensive income for the period Paid-up Equity Share Capital (Rs. 10/- per share & Consolidated (Rs. 10.02 Per Share) Earnings per Share (a) Basic (a) Basic Innable June 30, 2023 Un-Audited 22.41 22.41 22.41 14.44 14.44 15.10.00 16.10 17.01.00 17.01.00	ended	Profit/(Loss) before Exceptional Items & Extraordinary items and tax Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinery Items 22.41 64.98 5.32 Net Profit/(Loss) for from Ordinary Activities after tax 14.44 33.87 3.98 Total Comprehensive income for the period (Rs. 10.02 Per Share) 1,071.00 1,071.00 1,071.00 1,071.00 Earnings per Share (a) Basic 0.13 0.32 0.04	ended	ended	ended ended ended ended ended year Ended Ended	Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinery Items 14.44 33.87 3.98 3.87 14.83 34.04 3.98 7.002

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full formal of the Financial Results is available on the Stock Exchanges Website (www,bseindia.com) and on Company's website (www.mehaitech.co.in).

2. The said Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in its meeting held

Place: Jaipur Date: 14.08.2023 For Mehai Technology Limited (Managing Director)

For All Advertisement Booking Call: 0120-6651214





financi<mark>alexp.epap</mark>



बिजनेस रेमेडीज

आरके स्वामी लिमिटेड ने सेबी के समक्ष दायर किया ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस ('डीआरएचपी')

बिजनेस रेमेडीज/एजेंसी। रचनात्मक, मीडिया, डेटा एनालिटिक्स और मार्केट रिसर्च सर्विसेज के लिए एकल-रिवडकी समाधान की पेष्ठकश करने वाले सबसे बडे भारतीय बहुसंख्यक स्वामित्व वाले इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर आरके स्वामी लिमिटेड ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('SEBI') के समक्ष अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस ('डीआरएचपी') दायर किया है।

कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम में रूपये 2,150 मिलियन तक एग्रीगेटिंग का एक नया इश्यू और सेलिंग शेयर होल्डेर्स द्वारा ८.७००,००० इक्विटी शेयरों तक की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है। बिक्री के प्रस्ताव में श्रीनिवासन के स्वामी द्वारा 1,788,093 इक्विटी शेयर, नरिसम्हन कृष्णास्वामी द्वारा 1,788,093 इक्विटी शेयर, इवान्स्टन पायनियर फंड एल.पी. द्वारा ४.४४५.७१४ इक्विटी शेयर और प्रेम मार्केटिंग वेंचर्स एलएलपी द्वारा 678,100 इक्विटी शेयर शामिल हैं। आईपीओ के

№ R K SWAMY

माध्यम से जुटाए गए धन का उपयोग कार्यशील पूंजी के वित्तपोषण, डिजिटल वीडियो सामग्री तैयार करने वाले स्टूडियो की स्थापना के लिए किए जाने वाले पूंजीगत व्यय की फाइनेंसिंग, आरके स्वामी लिमिटेड के आईटी बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश के वित्तपोषण, सामग्री सहायक कंपनियां, हंसा रिसर्च और हंसा कस्टमर इक्विटी, नए ग्राहक अनुभव केंद्रों और कंप्यूटर एडेड टेलीफोन साक्षात्कार केंद्रों के साथ-साथ सामान्य कॉर्पेरिट उद्देश्यों की फाइनेंसिंग के लिए किया जाना प्रस्तावित है।

आरके स्वामी लिमिटेड भारत में सबसे बड़ी भारतीय बहुसंख्यक स्वामित्व वाली इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सेविंसेज प्रोवाइडर कंपनी है, जो रचनात्मक, मीडिया, डेटा एनालिटिक्स और बाजार अनुसंधान सेवाओं के लिए एकल-खिड़की समाधान

प्रदान करती है। एकीकृत विपणन संचार व्यवसाय खंड में रचनात्मक और डिजिटल सामग्री, मीडिया (डिजिटल सहित).

इवेंट्स और एक्टिवेशन प्लानिंग, खरीदारी और कार्यान्वयन और जनसंपर्क, सोशल मीडिया प्रबंधन और फार्मास्युटिकल संचार सहित अन्य पहलू शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान, आरके स्वामी लिमिटेड ने विभिन्न मीडिया आउटलेटस पर ग्राहकों की ओर से 818 से अधिक रचनात्मक अभियान जारी किए, 97.69 टेराबाइट्स डेटा को संभाला और मात्रात्मक. गुणात्मक और टेलीफोनिक सर्वेक्षणों में 2.37 मिलियन से अधिक उपभोक्ता साक्षात्कार आयोजित किए। सोलुशन्स और ओफरिंग तीन व्यावसायिक क्षेत्रों के बारह शहरों के 12 कार्यालयों और 12 फील्ड स्थानों में फैले 2,391 से अधिक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाती हैं। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड और

बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।

🖘 शंकर लाल रामपाल डाई-केम लिमिटेड

30 जून,2023 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार (अंगों के आकरों के अलाव श्रेष सभी जारो लाख में)

	0		0-0		0 4
疎.	विवरण		समाप्त तिमाही		समाप्त वित्त वर्ष
ਲਂ.		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
1.	प्रचालनों से कुल आय	5464.30	8778.70	8,348.98	32392.62
2.	अविध के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)(कर,असामान्य तथा असाधारण मदों से पूर्व)	79.23	424.38	826.70	2129.64
3.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) करों से पूर्व (असामान्य तथा /या असाधारण मदों के पश्चात)	79.23	424.38	826.70	2129.64
4.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (करों से पश्चात) असामान्य तथा /या असाघारण मदों के पश्चात)	57.59	109.40	618.68	1590.94
5.	अविध के लिए कुल व्यापक आमदनी (अविध के लिए (कर पश्चात) मुनाफा/(हानि) तथा अन्य	57.59	109.40	618.68	1590.94
	व्यापक आमदनी (कर पश्चात)				
6.	पेडअप इक्किटी शेयर पूंजी	6396.68	6396.68	2132.23	6396.68
7.	पुनर्सुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर रिजर्व जैसा कि गत वर्ष की बैलेंस	-	-	-	2839.61
	शीट में दर्शाया गया				
8.	प्रति शेयर अर्जन (वर्षिक नहीं) (प्रत्येक रु १०/-)				
	असाधारण वस्तुओं से पहले और असाधारण वस्तुओं के बाद				
	(मूल एवं तनुकृत) (मूल एवं तनुकृत समयोजित)	0.09	0.17	0.97	2.49
टिपाग	<u>a</u> ,				

उपरोक्त 30 जुन, 2023 को तिमाही के एकल वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और कंपनी के निवेशक मंडल द्वारा 14 अगस्त,2023 को आयोजित उनकी

यह विवरण कंपनी और्यिनयम, 2013 की यात 133 के तहत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (इंड एएस) के अनुसार और अन्य स्वीकृत लेखांकन प्रथाओं और नीतियों के अनुसर लागू सीमा तक तैयार किया गया है।

उपरोक्त सेबी (सूचीबद्ध द्वियत्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ द्वारा तिमाडी वित्तीय परिणामों के विस्तत प्ररूप का सार है तिमाही वितीय परिणामो का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों www.bseindia.com पर और कंपनी की वेबसाइट www.srdyechem.com पर उपलब्ध है। पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि प्रस्तुति के साथ पुष्टि करने के लिए, जल भी आवश्यक हो, पुनः समूहित/पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यक्त किया गय है।

स्थानः भीलवाडा (राजस्थान) दिवांक: 14/08/2023

निदेशक मंडल के लिये एवं आदेश से रामपाल ईनानी वेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक

(राशि लाखों में)

DIN-00480021 पंजीकृत कार्यालय का पताः एस.जी, २७७०, सुवाणा, भीलवाडा-३११०११(राज.) CIN L24114RJ2005PLC021340 दूरभाष : +91-1482-220062, ई मेल: info@srdyechem.com, वेबसाइट: www.srdyechem.com

निफ्टी फ्यूचर 19303 अंक अहम स्तर...!!!

दिनांक 16.08.2023 शेयर बाजार में ट्रेडिंग के संबंध में....

दिनांक 14.08.2023 पर निफ्टी फ्यूचर क्लोजिंग प्राइस @ 19478 पॉइंट पर :-

अगले कारोबार के लिए संभवित निफ्टी फ्यूचर 19373 अंक के मजबूत स्टॉपलॉस के साथ सबसे महत्वपूर्ण स्तर 19505 - 19570 - 19606 अंक को छू सकता है निफ्टी फ्यूचर में प्रतिक्रियात्मक के लिए 19303 रुपये का महत्वपूर्ण स्टॉपलॉस के साथ सावधानी की स्थिति...!!!

दिनांक 14.08.2023 पर बैंक निफ्टी फ्यूचर क्लोजिंग प्राइस @ 44234 पॉइंट पर :-

अगले कारोबार के लिए संभवित निफ्टी फ्यूचर 44008 अंक के मजबूत स्टॉपलॉस के साथ सबसे महत्वपूर्ण स्तर 44373 - 44474 - 44505 अंक को छू सकता है निफ्टी फ्यूचर में प्रतिक्रियात्मक के लिए 43808 रुपये का महत्वपूर्ण स्टॉपलॉस के साथ सावधानी की

अब नजर डालते हैं फ्यूचर्स स्टॉक सम्बंधित मूवमेंट पर...!!

टाटा कंसल्टंसी (3457):- टाटा ग्रूप की इस अग्रणी कंपनी के शेयर की कीमत फिलहाल 3408 रुपये के आसपास है। ३३८८ रुपये के सख्त स्टॉपलॉस के साथ खरीदा जा सकने वाला यह स्टॉक 3474 से 3488 रुपये की निर्धारित लक्ष्य की संभावना है...!! 3504 रुपये पर तेजी का रुख दिखाएगा...!!

रिलायंस इंडस्ट्रीज (2577):- तकनीकी चार्ट के अनुसार 2544 रूपये के आसपास सकारात्मक ब्रेकआउटज्!! 2525 रुपये के सपोर्ट से खरीदा जा सकने वाला यह स्टॉक 2590 रुपये से 2606 रुपये तक के लक्ष्य भाव की संभावना है...!

एचडीएफसी बैंक (1616) :- प्राइवेट



निखिल भट्ट रिसर्च एनालिस्ट, सेबी पंजीकृत

1640 रुपये तक की शॉर्ट टर्म तेजी का

रुख दिखाएगा, 1588 रुपये के

अनुमानित सख्त स्टॉपलॉस का पालन

इन्फोसिस लि. (1396) :- कंप्यूटर -

सॉफ्टवेयर एन्ड कंसिन्टिंग सेक्टर के

शेयर में 1408 रुपये से 1414 रुपये तक

की शॉर्ट टर्म तेजी का रुख दिखाएगा,

1373 रुपये के अनुमानित सख्त

भारती एयरटेल (867) :- 05 रुपये का

फेसवैत्युका फंडामेंटल स्टॉन्ग यह

स्टॉक करीब 844 स्टॉप लॉस के साथ

खरीदा जा सकने वाला टेलीकॉम -

सेल्युलर और फिक्स्ड लाइन सर्विस

सेक्टर के इस स्टॉक में लगभग 978

रुपये से 984 रुपये तक लक्ष्य

इंडिगो (2560) :- तकनीकी

चार्ट के अनुसार एरलाईन सेक्टर

के इस शेयर पर बिकवाली होने

की संभावना के साथ 2547 रुपरे

स्टॉपलॉस का पालन करें!!

से 2525 रुपये के आसपास लक्ष्य भाव की संभावना है । प्रतिक्रियात्मक के लिए 2600 का स्टॉपलॉस ध्यान में रखें...!!

आईसीआईसीआई बैंक (961) :- प्राइवेट बैंक सेक्टर के इस शेयर को करीब 977 रुपये स्टॉपलॉस के साथ बेचकर ९४८ रुपये से ९३० रुपये का टारगेट प्राइस रहने की संभावना है।

एक्सिस बैंक (943) :- इस श्रेयर को करीब ९७७ / ९८४ रुपये का स्टॉपलॉस साथ बेचकर की टारगेट प्राइस 928

रुपये से लेकर ९१९ रुपये तक रहने की संभावना है। ९९० रुपये पर तेजी का रुख दिखाण्या ॥।

लेखक सेबी पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक और इन्वेस्टमेंट पोइन्ट के मालिक हैं। विशेष नोट:- डिस्कलमर / नीति / शर्ते www.nikhilbhatt.in के अधीन...!!!

नोटः शेयरों में निवेश करने से पूर्व निवेशको को वित्तीय सलाहकार की सलाह

GLOBAL SURFACES LIMITED

Reg Office: PA-10-006 Engineering and Related Indus SEZ, ahindra World City Teh- Sanganer, Jaipur Rajasthan - 302037 IN Tel: 0141-7191000 CIN: L14100RJ1991PLC073860 Website: www.globalsurfaces.in; Email: cs@globalsurfaces.in

Extract of Un-Audited Consolidated Financial Results for the Quarter Ended June 30,2023

Sr.	Particulars	Quarter E	Year Ended					
No.		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023			
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited			
1.	Total Income from Operations	363.71	395.96	486.87	1,780.66			
2.	Net Profit/(Loss) for the period Before Tax, (before exceptional and/or extraordinary items)	36.78	59.13	76.17	252.91			
3.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax, (after exceptional and/or extraordinary items)	21.79	57.50	75.41	242.34			
4.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	21.54	56.01	83.62	257.13			
5.	Equity Share Capital (of Rs. 10-each)	423.82	423.82	338.62	423.82			
6.	Earnings Per Share:							
ı	Basic (in Rs.)	0.51	1.68	2.24	7.10			
	Diluted (in Rs.)	0.51	1.68	2.24	7.10			
	Note: Standalone Financial Information of the Company, pursuant to Regulation 47(1)(b) of SEBI(LODR):							
Sr.	Particulars	Quarter E			Year Ended			
No.		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023			

The above is an extract of the detailed format of Quarterly unaudited Financia Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listin Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015 as amended. The furformat of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stoc eindia.com and www.bseindia.com and also on Company

Mayank Shah
Chairman and Managing Director
DIN: 01850199 Place: Jaipur Date: August 14, 2023

71.08 56.18 75.97 260.38 57.07 54.78 75.26 250.74 Net Profit after Tax

388.22 391.12 484.06 1.770.30

changes i.e., www.iiseun.acci.in
bisite at www.globalsurfaces.in
For and on behalf of the Board of Directors

सोनी मेडिकेयर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ३८,कानोता बाग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-३०२००४ CIN: L51397RJ1988PLC004569 ई-मेलः cs@sonihospitals.com

वेबसाइटः www.sonihospitals.com, संपर्क नं. 0141-5163700, फैक्सः 0141-2564392

30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के अन-अंकेक्षित वित्तीय परिणाम

क्र.	विवरण	समाप्त तिमाही	पिछली समाप्त तिमाही	पिछले वर्ष की समान	समाप्त वर्ष
सं.				समाप्त तिमाही	
		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
		(अन-अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अन-अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से आय (शुद्ध)	753.60	555.86	668.40	2,753.17
	अन्य परिचालन आय	20.12	49.84	11.89	96.43
2.	लाभ और (हानि) असाधारण मदों और कर से पहले	11.40	(88.68)	6.63	(61.09)
3.	शुद्ध लाभ/(हानि) कर पश्चात की अवधि के लिए	9.17	(90.71)	5.57	(67.33)
4.	चुकता शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु.१०/- प्रति)	426.49	426.49	426.49	426.49
5.	मूल एवं तनुकृत ईपीएस (वार्षिक नहीं) (रु.)				
	मूल	0.21	(2.11)	0.13	(1.58)
	तनुकृत	0.21	(2.11)	0.13	(1.58)
	•				

1. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और निवेशक मंडल को अपनाने की सिफारिश की गई और निवेशक मंडल द्वारा 14 अगस्त,2023 को अनुमोदित किया गया है।

2. उपरोक्त सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवस्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज किए गए तिमाही अन-अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही अन-अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.sonihospitals.com) पर उपलब्ध है।

> निदेशक मंडल के आदेश से सोनी मेडिकेयर लिमिटेड के लिए कृते/-बिमल राय सोनी (प्रबंध निदेशक) DIN: 00716246

दिनांक: 14-08-2023 स्थानः जयपुर

Total Revenue from Operations

Bhilwara Technical Textiles Limited



STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

(₹ in Lakhs except per share data)

		STAND	ALONE		CONSOLIDATED			
Particulars		Quarter Ended	1	Year Ended	Quarter Ended		Year Ended	
Particulars	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited
Total Income from Operations (Net)	442.18	173.45	469.15	1,420.59	442.18	173.45	469.15	1,420.59
Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	66.20	24.18	35.82	202.05	66.20	24.18	35.82	202.05
Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	66.20	24.18	35.82	202.05	66.20	24.18	35.82	202.05
Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items & Share of profit of Associates)	52.35	17.83	30.37	144.82	397.74	(228.92)	35.80	(406.88)
Total Comprehensive Income for the period (Comprising of Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	52.16	18.49	26.23	143.75	399.69	(215.60)	(12.27)	(418.79)
Equity Share Capital	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73
Other Equity (reserves) as shown in balance sheet of the previous year	-	_	-	1,621.59	_	_	-	14,614.89
Earning Per Share (of ₹1 each) (before and after Extra ordinary items) (not annualised except for year ended results)								
Basic (₹)	0.09	0.03	0.05	0.25	0.68	(0.39)	0.06	(0.70)
Diluted (₹)	0.09	0.03	0.05	0.25	0.68	(0.39)	0.06	(0.70)

Place: Noida (U.P.)

Date: 14th August, 2023

- The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed unaudited financial results and this extract were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective meeting held on 14th August, 2023. The full format of the unaudited financial results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.bttl.co.in).
- This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereafter, and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.
- The Company's activities constitute a single business segment.
 - In relation to an Associate, the Power Purchase Agreement (PPA) with Discom, in respect of solar power, expired on March 31, 2019. The Discom has not yet renewed the PPA. The Company is pursuing for Power Purchase Agreement (PPA) with DISCOM, in terms of RERC order dated 5th March 2019 read with order dated 31st May 2023, @ ₹ 3.14 per Kwh, applicable to developers covered under the REC scheme for balance project life. Useful life is 25 years irrespective of the year of commissioning. As per said order, Discoms may execute PPAs for balance useful life of the project with project developers willing to sell power under REC mechanism to them. Since Company has exported power to DISCOM during the period, accordingly, Company has continued to recognise Revenue from Sale of Power of ₹ 48.09 Lakhs during the quarter ended June 30 2023 (previous year ₹ 184.5 Lakhs) as the Management of the company believes that PPA will be signed. Matter is sub judice before the Hon'ble Rajasthan High Court. Total accumulated unbilled revenue on account of solar power as at June 30, 2023 was ₹ 787.09 Lakhs.
- The figures of the last quarter ended March 31, 2023 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended 31st March, 2023 and the
- unaudited published year to date figures ended December 31, 2022, being the date of the end of the third quarter of the financial year which was subject to limited review. The Statutory Auditor has reviewed the results for the quarter ended 30th June 2023 and has issued an unqualified limited review report.

By Order of the Board For Bhilwara Technical Textiles Limited **Shekhar Agarwal Chairman & Managing Director and CEO**

DIN No.: 00066113

CIN: L18101RJ2007PLC025502

 $\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$

Corporate Office: Bhilwara Towers, A-12, Sector - 1, Noida - 201 301 (U.P) Phone: +91-120-4390300 (EPABX), Fax: +91-120-4277841, Website: www.bttl.co.in, E-mail:bttl.investor@Injbhilwara.com Registered Office: LNJ Nagar, Mordi, Banswara, Rajasthan - 327001 Phone: +91-2961-231251-52,+91-2962-302400, Fax: +91-2961-231254

बैद फिनसर्व लिमिटेड

की संभावना है!!!

(पूर्व में बैद लिजिंग एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय : बैद हाउस, द्वितीय तल, 1-तारा नगर, अजमेर रोड, जयपुर-06, फोन : 9214018855 E.: haidfinance@haidgroup.in • W.: www.haidfinserv.com • CIN: L65910RJ1991PLC006391

रतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि सूचना में वर्णित प्रस्तावों के निष्पादन के लिए श्रेद फिनसवें लिमिटेड (पूर्व में बैद लिजिंग एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड)(**कम्पनी)** के सदस्यों की 32वीं वार्षिक साधारण सभा (पूजीएम) गुरूवार, 07 सितम्बर, 2023 को दोपहर 03:00 बजे, भारतीय मानक समर (आईएसटी) पर बीडियो कॉन्फ्रेंसिग(बीसी)/ अन्य ऑडियो बिजुअल माध्यम(**ओएबीएम**)से एजीएम के नोटिस में उल्लेखित व्यवसाय के ट्रांन्जेक्ट करने हेतु आयोजित की जाएगी, जो कि कंपनी अधिनिय 2013 (अधिनियम) और नियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में एवं भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 (लिस्टिंग रेगुलेशन्स) कं साथ पढ़ा जाये। जिसमें आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति जरूरी नहीं है। अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कोरम की गणना व

एजीएम के नोटिस की इलेक्टॉनिक प्रतियां और वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट सोमवार. 1 अगस्त, 2023 को सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी ⁄ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है। सदस्यों को एजीएम और वार्षिक रिपोट के नोटिस की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकताओं को एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनसार समाप्त कर दिया गया है।

यह भी सुचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 और लिस्टिंग विनियमों के तहत नियम 42 के अन्तर्गत लाभांश यदि सदस्यों द्वारा 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए घोषित किया जाता है तो पाने का अधिकार तय करने के लिए कंपनी ने सदस्यों का रजिस्टर व शेयर हस्तांतरण बुक शुक्रवार तम्बर 2023 से गुरूवार 07 सितम्बर 2023 (दोनो दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधन) के नियम 20 और विनियमन 44 लिस्टिंग विनियमों और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों के तहत कंपनी ने सेन्टल डिपॉजिटरी सर्विसेव (इंडिया) लिमिटेड **(सीडीएसएल)** के माध्यम से अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही . ताकि उक्त एजीएम में टान्जेक्टेड के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों पर डलेक्टॉनिक रूप से मतदान करने व अपने अधिकार का प्रयोग किया जा सके और व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम **(रिमोट ई-वोटिंग**) के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सके ।

इस संबंध में, सदस्यों को आगे सूचित किया गया है कि: अव न, सर्वस्था का जान जून सामाज्य न वा त्या. दूरस्थ ई-मतदान की अवधि सर्विवार, 03 सिताब्बर, 2023 को प्रात: 09:00 बजे प्रारम्भ होगी और बुधवार, 06 सितम्बर, 2023 सार्थ 5:00 बजे समाप्त होगी ।दूरस्थ ई-मतदान की अनुमति बुधवार, 06 सितम्बर, 2023 को साय 5:00 बजे बाद नहीं दी जाएगी। सीडीएसएल द्वारा इसे अक्षम क

ऐसे व्यक्ति जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिक के रजिस्टर में कट-ऑफ तारीख यानी गुरूवार, 31 अगस्त, 2023 तक दर्ज किया गया है केवल वे ही लाभांश प्राप्त करने. एजीएम में दरस्थ ई-बोटिंग एवं ई-बोटिंग की सविधा प्राप्त करने व हकदार होंगे। दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया/ निर्देश एजीएम के नोटिस मे

(सी) कोई भी व्यक्ति जो एजीएम के नोटिस भेजने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ की तारीख यानी गुरूवार, 31 अगस्त, 2023 को शेयरों को रखता है तो वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि यदि व्यक्ति दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए पहले से ही सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तो वह मौजदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट

डालने के लिए कर सकता है। जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है और वीसी/ओवीएएम के माध

एजीएम में मौजूद हैं, वे एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डालन

(एफ) एजीएम की सूचना और विलीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट erv.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com एवं एनएसई लिमिटेड www.nseindia.com पर और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है ।

(जी) ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए www.evotingindia.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQs") देखें अथवा मदद अनुभाग के तहत उपलब्ध दूरस्थ ई-बोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देखें अथवा श्री राकेश दलवी, सीनियर मैनेजर (1800 22 55 33) सीडीएसएल, ए-विंग, 25वीं मंजिल, मैराधन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउण्डस, एनएम् जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 या मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com प

स्थान : जयपर

(पर्व में बैद लिजिंग एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड

पन्ना लाल बैट दिनांक: 15 अगस्त, 2023 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (DIN-00009897